



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

No. 45]

नई दिल्ली, बुधस्वतित्वार, जनवरी 16, 2003/पौष 26, 1924

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2003/PAUSA 26, 1924

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2003

का.आ. 50 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20क के अनुसरण में राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स इफको (आई एफ एफ सी ओ) द्वारा विनिर्माण किए जाने के लिए निम्नलिखित अनंतिम उर्वरकों के संबंध में विनिर्देश नियत करती है :—

## उर्वरकों को विनिर्देश

1. जिंक के आवरण वाला एन पी के मिश्र उर्वरक ( 12:32:16:0.5 )
  - (i) आर्द्रता, वजन में प्रतिशत, अधिकतम 1.5
  - (ii) कुल नाइट्रोजन, वजन में प्रतिशत, न्यूनतम 12.0
  - (iii) अमोनिकल नाइट्रोजन, वजन में प्रतिशत, न्यूनतम 9.0
  - (iv) यूरिया नाइट्रोजन एन के रूप में, वजन में प्रतिशत, अधिकतम 3.0
  - (v) न्यूट्रल अमोनियम साइट्रेट घुलनशील फॉस्फेट (पी<sub>2</sub>ओ<sub>5</sub> के रूप में), वजन में प्रतिशत, न्यूनतम 32.0
  - (vi) जल में घुलनशील फॉस्फेट (पी<sub>2</sub>ओ<sub>5</sub> के रूप में), वजन में प्रतिशत, न्यूनतम 25.0
  - (vii) जल में घुलनशील पोटाश (के<sub>2</sub>ओ के रूप में), वजन में प्रतिशत, न्यूनतम 16.0
  - (viii) जिंक (जेड एन के रूप में) वजन में प्रतिशत, न्यूनतम 0.5

कण का आकार—सामग्री के 90% से अन्यून, 1 एम एम और 4 एम एम आई एस छलनी के बीच का होगा तथा 5% से अधिक, 1 एम एम आई एस छलनी से नीचे का होगा।

2. जिंक के आवरण वाला एन पी के मिश्र उर्वरक ( 10:26:26:0.5 )
  - (i) आर्द्रता, वजन में प्रतिशत, अधिकतम 1.5
  - (ii) कुल नाइट्रोजन, वजन में प्रतिशत, न्यूनतम 10.0

(iii) अमोनिकल नाइट्रोजन, वजन में प्रतिशत, न्यूनतम	7.0
(iv) यूरिया नाइट्रोजन एन के रूप में, वजन में प्रतिशत, अधिकतम	3.0
(v) न्यूट्रल अमोनियम साइट्रेट घुलनशील फॉस्फेट (पी <sub>2</sub> ओ <sub>5</sub> के रूप में), वजन में प्रतिशत, न्यूनतम	26.0
(vi) जल में घुलनशील फॉस्फेट (पी <sub>2</sub> ओ <sub>5</sub> के रूप में), वजन में प्रतिशत, न्यूनतम	20.0
(vii) जल में घुलनशील पोटाश (के <sub>2</sub> ओ के रूप में), वजन में प्रतिशत, न्यूनतम	26.0
(viii) जिंक (जेड एन के रूप में) वजन में प्रतिशत, न्यूनतम	0.5

कण का आकार—सामग्री के 90% से अन्वून, 1 एम एम और 4 एम एम आई एस छलनी के बीच का होगा तथा 5% से अधिक, 1 एम एम आई एस छलनी से नीचे का होगा।

[फा. सं. 2-2/99-उर्व. विधि]

सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE**  
(Department of Agriculture and Cooperation)

**ORDER**

New Delhi, the 16th January, 2003

**S.O. 50 (E).**—In pursuance of clause 20A of the Fertilizer (Control) Order, 1985 the Central Government hereby fixes the specifications in respect of following provisional fertilizers to be manufactured by M/s. IFFCO for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette:—

**Specification of fertilizers**

<b>1. NPK complex fertilizer fortified with Zinc (12: 32: 16: 0.5)</b>	<b>1.5</b>
(i) Moisture per cent by weight, maximum	12.0
(ii) Total nitrogen per cent by weight, minimum	9.0
(iii) Ammonical nitrogen per cent by weight, minimum	3.0
(iv) Urea nitrogen (as N) per cent by weight, maximum	32.0
(v) Neutral ammonium citrate soluble phosphate (as P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), per cent by weight, minimum	25.0
(vi) Water soluble phosphate (as P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) per cent by weight, minimum	16.0
(vii) Water soluble potash (as K <sub>2</sub> O) per cent by weight, minimum	0.5
(viii) Zinc (as Zn), per cent by weight, minimum	

**Particle size**—Not less than 90% of the material shall be between 1 mm and 4 mm IS sieve and not more than 5% shall be below 1 mm IS sieve.

<b>2. NPK complex fertilizer fortified with Zinc (10: 26: 26: 0.5)</b>	<b>1.5</b>
(i) Moisture per cent by weight, maximum	10.0
(ii) Total nitrogen per cent by weight, minimum	7.0
(iii) Ammonical nitrogen per cent by weight, minimum	3.0
(iv) Urea nitrogen (as N) per cent by weight, maximum	26.0
(v) Neutral ammonium citrate soluble phosphate (as P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), per cent by weight, minimum	20.0
(vi) Water soluble phosphate (as P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) per cent by weight, minimum	26.0
(vii) Water soluble potash (as K <sub>2</sub> O) per cent by weight, minimum	0.5
(viii) Zinc (as Zn), per cent by weight, minimum	

**Particle size**—Not less than 90% of the material shall be between 1 mm and 4 mm IS sieve and not more than 5% shall be below 1 mm IS sieve.

[F.No. 2-2/99 Fert. Law]

SATISH CHANDER, Jt. Secy.